

~प्रेस विज्ञप्ति~

***** बरामदशुदा एक अदद हैण्ड बैग जिसमें ज्वैलरी, 7720 रु0 व लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल व गिरफ्तारी 1 नफर अभियुक्त संबंधित मु0अ0सं0 0271/2021 धारा 392/411 भादवि *****

**** डा0 प्रीती श्रीवास्तव का हैण्ड बैग जिसमें ज्वैलरी, 7720 रुपये व अन्य जरूरी कागजात मौजूद थे लूटने वाले अभियुक्त को महज 24 घण्टे के अन्दर भेलूपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ****

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के अनुपालन के क्रम में रोकथाम जुर्म जरायम व वांछित अभियुक्तों संदिग्ध व्यक्ति /वस्तु/वाहन के चेकिंग के संबंध में तथा श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध, कमिश्नर वाराणसी के निर्देशन में व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर अमित कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी महमूरगंज व उनकी टीम को जलकल पर वाहन चेकिंग के सफलता मिली । मुखबीर द्वारा बताया गया कि साहब महमूरगंज में जो लेडी डाक्टर का पर्श लूट करके भागा था वह जलकल की तरफ मोटर साइकिल से आने वाला है उसके पास लूट का बैग भी है मुखबीर सूचना पर विश्वाकर करके मय पुलिस फोर्स के कंकडहवा वीर बाबा मंदिर के थोडा आगे जलकल विभाग की बाउण्ड्री के पास आकर जहाँ पर कई ट्रैक्टर खडे हैं वही पर एक व्यक्ति गोल्डेन रंग की मोटर साइकिल लिए खड़ा है को एक बारगी पुलिस बल की मदद से अभियुक्त शंकर बिन्द उपरोक्त उम्र करीब 30 वर्ष को दिनांक 02.06..2021 को 11.45 बजे अभि0 को गिरफ्तार किया गया लूट का माल बरामद कर अभियुक्त के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछ:-

पूछताछ में अभि0 शंकर बिन्द जूम को स्वीकार करते हुए बतला रहा है कि मैं विजय साहनी निवासी नटराज सिनेमा जो शादी विवाह में कैटरिंग का काम करते हैं जिनका गोदाम खोजवां चौकी के पीछे है के यहां काम करते हैं । मोटर साइकिल नं0 UP 65 BJ 2871 हीरो स्पेलेण्डर गोल्डेन कलर जो कैटरिंग के मालिक का है और उसी बाईक से मैं शादी विवाह के अवसरों पर दौड़ भाग करता हूँ तथा गोदाम खोजवां में भी जाता हूँ । ताकि वहाँ पर कोई सामान की चोरी न हो सके देखभाल करता हूँ । दिनांक 31.05.2021 को मैं उसी मोटर साइकिल से जो आज मेरे कब्जे से बरामद हुई है खोजवां गोदाम पर जा रहा था कि रथयात्रा के आगे रतन ज्वैलर्स के सामने एक लड़की व उसके साथ एक बुढी महिला एक रिक्शे से आकाशवाणी की ओर जा रही थी कि लड़की के कन्धे पर एक बैग टंगा था जिसे मैंने छीन लिया था और लेकर पेट्रोल पम्प की तरफ भाग गया था और पेट्रोल पम्प से होते हुए मैं गोदाम चला गया था । मैंने बैग खोल कर देखा तो उसमें 14000 रुपये थे जिसमें पाँच-पाँच सौ के नोट थे । मैंने उसमें से करीब आधा रुपया खाने पीने में खर्च कर दिया था । 7720 रुपया बच गया था तथा पर्स में दो सोने की नई जनानी व मर्दाना अंगुठी थी व एक मोबाइल फोन व ब्लूटूथ डिवाइस था । मैंने मोबाइल फोन कर पकडे जाने के डर से खोजवां पुलिस चौकी के पास नाली में मोबाइल को फेक दिया था बाकी बैग, हैण्डपर्स, एटीएम कार्ड आधार कार्ड व बचा हुआ लूट का शेष रुपया तथा सोने की अंगुठी मेरे पास मौजूद थी जिसे मैं आज बेचने के लिए एक सोनार को इसी जगह बुलाया था । सोनार आने में देर कर दिया और आपने मुझे पकड लिया । यह वही मोटर साइकिल है जिसे मैंने दिनांक 31.05.2021 को रथयात्रा के पास रतन ज्वैलर्स के सामने सरेआम मुख्य मार्ग पर महिला का पर्स लूटा था । मुझसे गलती हो गयी है । मैं अपनी गलती की मांगता हूँ । यदि आप चले तो जहाँ पर मैंने लूट का मोबाइल व ब्लूटूथ डिवाइस नाली में फेका हूँ चल कर वह जगह दिखा सकता हूँ और बरामद करा सकता हूँ ।

नाम पता अभियुक्त-

शंकर बिन्दु पुत्र स्व० गोपाल बिन्दु, निवासी डी 47/169 रामापुरा लक्सा रोड, थाना लक्सा वाराणसी उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

कंकडहवा वीर बाबा मंदिर के थोडा आगे जलकल विभाग की बाउण्ड्री के पास थाना भेलूपुर दि०- 02.06.2021 समय करीब 11.45 AM बजे ।

बरादमगी:-

1- लूट का बचा हुआ 7720 रुयया, 2-दो अदद सोने की अंगुठी (एक लेडिज व एक जेंट्स), जो चतुर्वेदी आभूषण हौज कटोरा थाना चौक का कवर सहित, 3-एक अदद लेडिज हैण्ड पर्स व 4-एक अदद पैनकार्ड, 5-एक अदद आधार कार्ड, 6-एक अदद निर्वाचन कार्ड, 7-एक अदद पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड, 8-एक अदद एटीएम कार्ड एस बैंक, 9-एक अदद एटीएम कार्ड एसबीआई, 10-एक अदद एटीएम कार्ड एक्सिस बैंक, 11-एक अदद डीएल, 12-एक अदद लेडिज हैण्डबैग 13-एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो रंग गोल्डेन नं० UP 65 BJ 2871 (लूट में प्रयुक्त)

अपारधिक इतिहास:- अभि० शंकर बिन्दु उपरोक्त

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	0075/2017	323/504/506 भादवि	लक्सा
2	0058/2018	376/504/506 भादवि	लक्सा
3	0271/2021	392/411 भादवि	भेलूपुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री अमित कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।
2. उ०नि०श्री अनुज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी महमूरगंज थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।
3. उ०नि० श्री शशि प्रताप सिंह चौ०प्र० रेवडी तालाब थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।
4. उ०नि० श्री वेद प्रकाश यादव चौकी खोजवा थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी
5. उ०नि० श्री शैलेश कुमार यादव, थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।
6. कां० अरविन्द कुमार यादव, थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।
7. कां० विनित सिंह थाना भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी ।